

Reg. Office Address:

Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan,

Maulana Azad Road, New Delhi 110001

CIN: L70101DL2005GOI132162

Website: www.hpil.co.in

Email: info@hpil.co.in, Tel: 011-23061325



HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Sub: Newspaper Advertisement regarding intimation of completion of dispatch of Postal Ballot Notice.



CIN: L70101DL2005GOI132162
पंजीकृत कार्यालय का पता:
 कनका नंबर 144, सी-विंग,
 निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड,
 नई दिल्ली 110001
वेबसाइट: www.hpil.co.in
ईमेल: info@hpil.co.in

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

[illegible]

? \$0 531
 / 0 E 6 '&
 M & 0 & ? \$0 HN 9 ? :
 \$0 (D F ;>; ::=A78C:Q
 E I &
 &

यह विज्ञापन केवल सूचना उद्देश्य के लिए है और न ही भारत के बाह्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन, विपणन या रिजर्जन के लिए है।
वेबनेचन की सिफारिश करना नहीं है और न ही भारत के बाह्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन, विपणन या रिजर्जन के लिए है।
यह ऑफर दर्तावेज के लिए घोषणा नहीं है। यहां उपयोग किए गए और यहां परिभाषित नहीं किए गए सभी कैपिटललाइन शब्दों का अर्थ सेवा (‘पूँजी का निर्माण और प्रकटिकरण’) वित्तियम, 2018 और समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार बौईएमएल और बौईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड (‘समाचार पत्र विज्ञापन’) के डीमर्जर के सम्बन्ध में जारी किए गए समाचार पत्र विज्ञापन में उनके लिए निर्दिष्ट नहीं होगा।

		!	"	\$ % # " & &	& (&	\$ % () *	& + "	\$ & \$
बोईएमएल लिमिटेड	एमओए को संस्करण	15 जुलाई, 2021		1,00,000	1/-		100%	
रक्षा मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) के माध्यम से भारत सरकार	योजना के अनुसार	16 सितम्बर, 2022		2,25,00,000	10/-		54.03%	

2. लिस्टिंग की तारीख से पहले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण। खातों पर नोट्स और किसी भी लेखा परीक्षा योग्यता के साथ नवीनतम पुनर्कथित लेखापरीक्षित फाइनेंशियल्स। (वित्तीय विवरण लिस्टिंग की तारीख से छह महीने पहले के बाद का नहीं होना चाहिए)

कंपनी का प्रो फॉर्मो कंटेस्ट (पुनर्कथित) तुलन पत्र इस प्रकार है:

3	78 6 09 7; ; ? 78 ; ; ?	(10 < 0 1 ?
आस्तिया		
गैर-चालू आस्तिया		
सम्पत्ति, संयन्त्र तथा मशीनरी		
प्रगतिशील कार्य पूंजी		@ 7 : *
निवेश सम्पत्ति		@ 7 : * @ A
अमूर्त आस्तिया		
वित्तीय आस्तिया		
निवेश		
अन्य वित्तीय आस्तिया		
आस्थगित कर आस्तिया (निवल)		
गैर-चालू कर आस्त (निवल)		
अन्य गैर-चालू आस्तिया		@ 7 : * C
4 5 6 (! & " , * ; ;		@ 7 : * = A
चालू आस्तिया		
वित्तीय आस्तिया		
व्यापार प्राप्त्य		
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	; * = -	; * = = 8 * 8 =
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक बैलेंस		
अन्य वित्तीय आस्तिया		; * B C 7 * @ 7
अन्य चालू आस्तिया		7 * B 7 C * - .
6 (! & " , * = -		@ 7 A * C = @ 7 @ *
! & " # & " , * = -		
\$ % # & " , * = -		@ 7 A * C = @ 7 @ *
\$ %		
इक्विटी शेयर पूंजी	8 * ; ;	C 9 8 A C * C B C 9 8 A C
अन्य इक्विटी	; * > 8	7 9 C = 8 * C , 7 9 B 8 ;
कुल इक्विटी	; * 8 =	A @ 7 * ; B A B C * 8
देयताएं		
गैर-चालू देयताएं		
वित्तीय देयताएं		
दीर्घ कालीन उधारियां		
पट्टा देयताएं		
4 5 6 (& " , * ; ;		; * ; ; ; * ; ;
चालू देयताएं		
वित्तीय देयताएं		
अल्पकालीन उधारियां		
पट्टा देयताएं		
व्यापार देय		
माइक्रो एंटरप्राइजेज तथा स्माल एंटरप्राइजेज के		
कुल बकाया देय		
माइक्रो एंटरप्राइजेज तथा स्माल एंटरप्राइजेज के		
अतिरिक्त लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं		
अन्य चालू देयताएं	; * > ;	A 7 * C C > 7 * : =
प्रावधान		
चालू कर देयताएं (निवल)		
कुल चालू देयताएं	; * > ;	A 7 * C C > 7 * : =
कुल देयताएं	; * > ;	A 7 * C C > 7 * : =
कुल इक्विटी तथा देयताएं	; * - -	@ 7 A * C = @ 7 @ *

नोट: कंपनी को 15 जुलाई, 2021 को निगमित किया गया था, इसलिए पिछले वर्षों के आंकड़े नहीं हैं

#	" E	3	78	6	09	1	78	3
(	<				F 0		G E	
					1 < 0		1 < 0	
					(0	6	6	
प्रचालन से राजस्व								
अन्य आय								
कुल आय								
व्यय :								
उपभुक्त सामग्रियों का लागत								
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद								
तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड तथा प्रगतिशील कार्य की इन्वेन्ट्री में परिवर्तन								
कर्मचारी लाभ व्यय								88*7 :
वित्तीय लागत								8* @ 8
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन व्यय								* AC
असम्य व्यय * \$								8 B * 8 :
कुल व्यय								7 B * C @
अपवादित मदों द्वारा प्राप्त पूर्व लाभ/(हानि)								7 B * C @
जोड़ा/(घटाया) : अपवादित मदों								
कर पूर्व लाभ/(हानि)								7 B * C @
कर व्यय :								
(1) चालू कर								
(2) आस्थगित कर								
संतत प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ/(हानि)								7 B * C @
असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि)								
असतत प्रचालनों का कर व्यय								
असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)								
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)								7 B * C @
अन्य व्यापक आय								
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जायेगा परिग्राहित लाभ का पुनर्मापन (देयता)/आस्ति								
उन मदों से सम्बन्धित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जायेगा								
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जायेगा								
उन मदों से सम्बन्धित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जायेगा								
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय								7 B * C @
प्रति इक्विटी शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) रु. में								
वेसिक एवं डाइल्यूटेड								

प्रकार का कंडेस्ट नकदी प्रवाह विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (डिजिटल से पूर्व)	30 सितम्बर, 2022 को समाप्त छत्रपति साहेब जी महाराज नौमाही के लिए (डिजिटल के पश्चात)	31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त नौमाही के लिए (डिजिटल के पश्चात)
A. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर तथा असाधारण मदों से प्राप्त निवल लाभ	(0.81)	(15.52)	(35.47)
मूल्यहास तथा ऋण परीक्षण व्यय के लिए समायोजन	-	0.16	0.64
वित्तीय लागत	(0.81)	0.24	1.71
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	(0.81)	(15.12)	(33.12)
अन्य गैर-चालू आस्तियों के लिए समायोजन	-	(0.20)	(0.20)
अन्य चालू आस्तियाँ	-	(2.54)	(3.73)
अन्य देयताएँ	0.80	62.64	82.50
प्रचालनों से सृजित नकदी	(0.01)	44.78	45.45
प्रत्यक्ष कर (प्रदत्त)/प्रतिदायित	-	-	-
प्रचालन गतिविधियों से/(प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह	(0.01)	44.78	45.45
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
भूमि तथा भवन में निवेश	-	(732.76)	(732.28)
मुख्य हास तथा ऋण परिपोषण व्यय	-	(0.16)	(0.64)
निवेश गतिविधियों से/(प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह	0.00	(732.92)	(732.92)
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयरों का निर्गमन	1.00	4163.45	4163.45
वित्तीय लागत	-	(0.24)	(1.71)
आवृत्ति आय में समायोजन	-	(3,475.07)	(3,474.07)
वित्तीय गतिविधियों से/(प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह	1.00	688.14	687.67
नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	0.99	0.00	0.20
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	0.00	0.99	0.99
वर्ष के अन्त में नकदी तथा नकदी समतुल्य	0.99	0.99	1.19

0	इश्वरटी शेयर पूंजी	30 सितम्बर, 2022 को समाप्त छमाही हेतु (डिम्जर के बाद)	31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त नौमाही के लिए (डिम्जर के बाद)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (डिम्जर से पूर्व)		
विवरण	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारम्भिक शेय (रु. 1 प्रत्येक)	1,00,000	1.00	1,00,000	1.00	-	-
वर्ष के दौरान इश्वरटी शेयर पूंजी में परिवर्तन						
शेयरों की निस्सीकरण (रु. 1 प्रत्येक)	(1,00,000)	(1.00)	(1,00,000)	(1.00)	1,00,000	1.00
1:1 के अनुपात में नवीन शेयरों का निर्वम (रु. 10 प्रत्येक)	4,16,44,500	4,164.45	4,16,44,500	4,164.45	-	-
अन्तिम शेय	4,16,44,500	4,164.45	4,16,44,500	4,164.45	1,00,000	1.00

13. अन्य इक्विटी	30 सितम्बर, 2022 को समाप्त छमाही हेतु (डिमर्जर के बाद)		31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त नौमाही के लिए (डिमर्जर के बाद)			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (डिमर्जर से पूर्व)	
विवरण	धारित आय	कुल	धारित आय	पूँजी आरंभित	कुल	धारित आय	कुल
प्रारंभिक शेय (रु. 1 प्रत्येक)	(0.81)	(0.81)	(0.81)	-	(0.81)	(0.81)	(0.81)
पूर्व अवधि मंदों के कारण बहाली समायोजन	(0.10)	(0.10)	(0.10)	-	(0.10)	-	-
बहाल प्रारंभिक शेय राशि	(0.91)	(0.91)	(0.91)	-	(0.91)	(0.81)	(0.81)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(15.52)	(15.52)	(35.47)	-	(35.47)	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
	(16.43)	(16.43)	(36.38)	-	(36.38)	(0.81)	(0.81)
जारी किए गए डिमर्जर और इक्विटी शेयरों पर स्थानांतरित मूल्य आनिधियों में अंतर के लिए समायोजन	(3,431.53)	(3,431.53)	(3,431.53)	-	(3,431.53)	-	-
अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क तथा स्टैम्प शुल्क प्रभाव	(43.44)	(43.44)	(43.44)	-	(43.44)	-	-
बीईएमएल में निवेश का निरस्तीकरण	-	-	-	1.00	1.00	-	-
डिविडेंड रिटायरेशन आरंभित	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारियों के साथ सामान्य आरंभित लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-
लाभोश	-	-	-	-	-	-	-
लाभोश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेय	(3,491.40)	(3,491.40)	(3,511.35)	1.00	(3,510.35)	(0.81)	(0.81)

8 5& ! N

(ए) प्रस्तुत अधिवर्षों के लिए प्रोफार्मा कंडेंसड (पुनर्कथित) वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और 30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही और 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से तैयार की गई है।

(बी) 30 सितंबर, 2022 को समाप्त छमाही के लिए प्रोफार्मा कंडेंसड वित्तीय सूचना में डीमजूर के प्रभाव को शामिल किया गया है।

(सी) प्रोफार्मा कंडेंसड (पुनर्कथित) वित्तीय जानकारी को कंपनी द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित लिफ्टिंग के लिए प्रार्सिफि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दालिख किया जाने वाले सेबी (पूजी) का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2014 (संशोधित) के अनुसार तैयार किए गए सूचना जापान में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

(डी) प्रोफार्मा कंडेंसड (पुनर्कथित) वित्तीय जानकारी उन उपलब्ध जानकारी और मान्यताओं के आधार पर तैयार की गई है, जिसे कंपनी उचित मानती है और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी 'प्रोफार्मा' ; फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स पर रिपोर्टिंग के लिए गाइड' और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए संयुक्त और निष्पक्षित वित्तीय विवरण H पर स्पष्टीकरण नोट के अनुसार है।

क ६

(1) बीएलएल डिमजूर की नियत तिथि 25 अगस्त 2022 है और तदनुसार इस तारीख से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इस तारीख से कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (डिमजूर की गई कंपनी) व सहायक कंपनी नहीं रह गई है।

(2) कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी को 10 रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

(3) कंपनी (बीईएमएल लैड एंटेस्ट लिमिटेड) ने 16 सितंबर 2022 को रिपोर्ट तिथि यानी 9 सितंबर, 2022 के आधार पर ठहरा यो योजना के अनुसार 11.1 के अनुसार) में बीईएमएल लिमिटेड के योग्यधारकों को इक्विटी शेयर जारी और आंशिक तिथि डीमजूर से पहले डीमजूर की गई कंपनी (बीईएमएल लिमिटेड) द्वारा धारित 1 लाख रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी को निरस्त कर दिया गया है और इसे पूंजी आरंभित में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(4) कंपनी के खाते इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(5) ठहराव की योजना के तहत बीईएमएल लिमिटेड (732.92 लाख रुपये के बही मूल्य पर) से स्थानांतरित भूमि और पक्का 'वर्मान' में अनिधिधित भावी उपयोग) के लिए कंपनी में रखे गए हैं इसलिए इन अनिधियों को इंड एएस 40 के अनुसार निवे संघटित के रूप में माना गया है।

(6) निवेश संघटित (भूमि और भवन) का मूल्यांकन बीईएमएल लिमिटेड से अधिग्रहण की लागत पर किया गया है और अधिग्रहण की लागत तथा इक्विटी शेयर पूंजी के बीच के अंतर को प्रतिधारित आय के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

(7) कंपनी को और बीईएमएल लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई राशि को इंट-कॉर्पोरेट ऋण के रूप में माना गया है और उस पर ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चार्ज की गई सीसी ब्याज दर से 1% अधिक ब्याज दर पर लागू की गई है, जैसा कि बीईएमएल लिमिटेड और बीएलएलएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

(8) बीईएमएल से बीएलएलएल को स्थाविक के भौतिक हस्तांतरण के समय प्रत्येक भूमि भाग के वास्तविक माप के आधार पर बीएलएलएल द्वारा धारित भूमि का क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है।

(9) इसकी अन्य समूह कंपनियों का विवरण, जिसमें उनकी पूंजी संरचना और वित्तीय विवरण शामिल हैं। कंपनी के पास कोई अन्य समूह कंपनियां नहीं हैं।

(10) आकस्मिक देनदारियों की सारांश तालिका जैसा कि पुनर्कथित वित्तीय में प्रकट किया गया है। कोई आकस्मिक देनदारियां नहीं हैं। इसलिए, प्रो फार्मा कंडेंसड (पुनर्कथित) वित्तीय सूचना के नोट्स में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

(11) पिछले 3 वर्षों में संबंधित पार्टी लेनदेन की सारांश तालिका जैसा कि पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है; कंपनी की ओर से बीईएमएल लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई राशि को अंतर-कॉर्पोरेट ऋण के रूप में माना गया है और बीईएमएल लिमिटेड और बीएलएलएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राधारित सीसी ब्याज दर से 1% अधिक ब्याज दर पर ब्याज लागू किया गया है।

(12) ऐसी जानकारी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है

कोई नहीं

समाचार पत्र को इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा और दिनांक 07 मार्च, 2023 के समाचार पत्र को ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार उपयुक्त रूप से संशोधित माना जाएगा। इस शुद्धिपत्र में दी गई जानकारी दिनांक 07 मार्च, 2023 के समाचार पत्र में दी गई जानकारी की तुलना में इसकी अतिरिक्त सूचना है,

इस शुद्धिपत्र में उपयोग किए गए सभी कैपिटलाइज्ड शब्द जब तक संदर्भ की आवश्यकता न हो, तब तक वही अर्थ होंगे जो 0 मार्च, 2023 के समाचार पत्र में बताए गए हैं।

शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। निवेशक ध्यान दें कि इक्विटी शेयरों में निवेश में एक सी

जायज' माना है और इससे संयुक्त विद्येय के लिए कृत्य प्रेमकर. समाचार पत्र विद्येय ने संयुक्त जायज जायज' माना है। यह घोषणा भारत में प्रकाशन के लिए कृत्य की गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी नहीं की जा सकती है। घोषणा संयुक्त राज्य सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में विक्री के लिए इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव का गठन नहीं करती है और इस घोषणा में वर्णित किसी भी इक्विटी शेयरों को संयुक्त राज्य में प्रस्तावित या बेचा नहीं जा सकता है।

बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

1

E O ! * , ? M O

 $2B^* : C^* : \dots : Z$

? 5 4 9 0

